

भोजन को सुरक्षित रखने में घर के सभी सदस्यों की भूमिका होती है!



चुनना

सुरक्षित कच्ची सामग्रियाँ चुनें



सफाई

हाथों और बर्तनों को साफ रखें




अलग करना

कच्चे और पके भोजन को अलग अलग करें



खाना पकाना

अच्छी तरह से पकाएं



सुरक्षित तापमान

भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखें



खाद्य सुरक्षा के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड को स्कैन करें!



खाद्य जनित बीमारियाँ और उच्च जोखिम वाला भोजन



खाद्य सुरक्षा के लिए पाँच कुंजियाँ



पोषण संबंधी लेबलिंग



खाने से एलर्जी



थीमैटिक वेबपेज